

भारत सरकार  
पर्यटन मंत्रालय  
राज्य सभा

लिखित प्रश्न सं. 1755

मंगलवार, 03 अगस्त, 2021/12 श्रावण, 1943 (शक)  
को दिया जाने वाला उत्तर

पंजाब में स्वदेश दर्शन योजना

1755. श्री प्रताप सिंह बाजवा:

क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) वर्ष 2019-20 से अब तक स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत संस्वीकृत परियोजनाओं की कुल संख्या का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;
- (ख) वर्ष 2017-18 से अब तक इस योजना के अंतर्गत पंजाब राज्य में संस्वीकृत परियोजनाओं की कुल संख्या का जिला-वार ब्यौरा क्या है;
- (ग) वर्ष 2019-20 से अब तक चिह्नित किए गए सर्किटों में सृजित कुल रोजगार का ब्यौरा क्या है; और
- (घ) वर्ष 2019-20 से अब तक इस योजना के अंतर्गत कुल कितनी परियोजनाएं पूर्ण की गई हैं और इस योजना के अंतर्गत एक परियोजना को पूर्ण करने में औसतन कितना समय लगा है?

उत्तर

पर्यटन मंत्री

(श्री जी. किशन रेड्डी)

(क) और (ख): पर्यटन मंत्रालय ने स्वदेश दर्शन योजना के विभिन्न थीमैटिक परिपथों के तहत वर्ष 2017-18 से अभी तक देश में 31 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 76 परियोजनाओं को स्वीकृति दी है जिसमें पंजाब राज्य में आनंदपुर साहिब- फतेहगढ़ साहिब- चमकौर साहिब- फिरोजपुर- अमृतसर- खटकर कलां- कलानौर-पटियाला के विकास संबंधी परियोजना शामिल हैं I स्वदेश दर्शन योजना के तहत वर्ष 2019-20 से किसी परियोजना को स्वीकृति नहीं दी गई है I

(ग) और (घ): अभिज्ञात परिपथों में सृजित कुल रोजगार से संबंधित आंकड़ों का संग्रहण पर्यटन मंत्रालय द्वारा नहीं किया जाता है I पर्यटन मंत्रालय की स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत वर्ष 2014 -15 से 2018-19 के बीच की अवधि में कुल 76 परियोजनाएं स्वीकृत की गई थी जिनमें से 11 परियोजनाओं को भौतिक रूप से पूरा किया गया है I इन परियोजनाओं के लिए औसत परिसमापन अवधि 4 वर्ष और 4 माह थी I

\*\*\*\*\*